

Date: 11.7.2021

Publication: Navbharattimes.indiatimes.com

Headline: Let's understand what Personal Accident insurance cover entail

Personal Accident Cover: जानते हैं इस बीमा के बारे में ये जरूरी बातें!

Authored by शिशिर चौरसिया | Navbharat Times | Updated: 11 Jul 2021, 07:44:30 AM

हममें से काफी लोग ऐसे हैं, जो सोचते हैं उनके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। यह सोचना बहुत आसान है। लेकिन, दुर्घटना (Accident) और चोट कभी भी लग सकती है। कभी-कभी इसके दूरगामी प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास बड़ी मात्रा में राशि नहीं हो तो आपको दिक्कत हो सकती है।



बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के रिटेल अंडराइटिंग के हेड, गुरदीप सिंह बत्रा का कहना है कि किसी के साथ अनहोनी कभी भी हो सकती है। इसलिए, यह सोचना जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई गंभीर दुर्घटना घटी तो आपके और आपके परिवार के सदस्यों का क्या होगा। चूंकि, कोई घातक या गंभीर चोट के गंभीर वित्तीय दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए, एक उपयुक्त पर्सनल एक्सिडेंट कवर का होना आवश्यक है।

यह कवर जरूरी क्यों

पर्सनल एक्सिडेंट कवर (Personal Accident Cover) एक बेनिफिट पॉलिसी है जो आपको दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के जोखिम के खिलाफ कवर करती है। किसी दुर्घटना से पूरी तरह से या आंशिक रूप से विकलांगता हो सकती है। जिससे आपके परिवार के सदस्यों की वित्तीय स्थिरता में बाधा आ सकती है। ऐसी स्थिति में, जीवन बीमा पॉलिसी कवरेज प्रदान नहीं करती है और एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्चों को कवर करती है। एक व्यक्तिगत दुर्घटना नीति आपको ऐसी किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में सुरक्षित रखती है। यह पॉलिसी काफी सस्ती होती है। 15 लाख रुपये की बीमा राशि वाला कवर आपको एक दिन में एक रुपये से कम खर्च पर मिल सकता है। यह वार्षिक आधार पर उपलब्ध है और हर वर्ष इसे रिन्यू करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के इसका कवरेज पहले ही दिन से शुरू हो जाता है।

तो यह वास्तव में क्या कवर करता है?

इसे एक उदाहरण के जरिए समझें। मान लें कि किसी दुर्घटना के कारण बीमाधारक को विकलांगता हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्तिगत दुर्घटना (पर्सनल एक्सीडेंट) कवर बीमाधारक के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यहां, चोट की भयावहता से कोई मतलब नहीं होता। सड़क दुर्घटना या साइकिल से गिरने और हाथ तोड़ने या फुटबॉल खेलते समय पैर में फ्रैक्चरिंग जैसी छोटी-बड़ी दुर्घटना के लिए चिकित्सा उपचार के खर्च को इस नीति के तहत कवर किया जाता है। आकस्मिक मृत्यु और पूरी तरह से विकलांगता (कोमा या पक्षाघात के रूप में) जैसी स्थिति के लिए यह कवरेज सबसे महत्वपूर्ण है, पर आपको अस्थायी विकलांगता की संभावना को अनदेखा बिलकुल नहीं करना चाहिए, जो आपकी नियमित आय में सेंध लगा सकता है। न्यूनतम कीमत पर इन बुनियादी कवरों का चयन करना एक बुद्धिमानी भरा वित्तीय निवेश है जो अपने परिवार को बाद में आ सकने वाले संकटों से बचाने के लिए होता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर वर्ल्डवाइड कवरेज के साथ आती हैं, जिसमें मौत के साथ साथ टोटल परमानेंट विकलांगता, स्थाई आंशिक विकलांगता, एडवेंचर स्पोर्ट्स बेनिफिट, चिल्ड्रेन्स एडुकेशन बेनिफिट, फ्रैक्चर केयर, ईएमआई भुगतान और लोन प्रोटेक्टर कवर आदि का समावेश है।

पॉलिसी की कस्टमाइजेशन (customization) विशेषताएं

इन नीतियों में उल्लिखित कवरेज किसी ग्राहक को उस कवरेज को चुनने के लिए सशक्त बनाता है जिसे वे अपने लिए सबसे अधिक अनुकूल पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक साहसिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस बेस कवर के अतिरिक्त इस कवर का लाभ उठाने के लिए इसके प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। या यदि आपके पास भुगतान करने के लिए ईएमआई है, और खुदा न खास्ता आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर स्थाई रूप से विकलांग हो जाते हैं तो आप ऋण रक्षक विस्तार (loan protector extension) ले सकते हैं और अपने लोन के बारे में सुरक्षित हो सकते हैं।

आवश्यक है सभी के लिए

एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर आपके और आपके परिवार की वित्तीय स्थिति की रक्षा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है जो किसी भी अनहोनी या दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण घट सकता है। आकस्मिकताओं के ऐसे समय में वित्तीय प्लानिंग न केवल आपको दुखों से बेहतर सामना करने में मदद करती है, बल्कि जैसे ही आप ठीक होते हैं, आपको सामान्य और गरिमामयी जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी एक किफायती और व्यवहारिक विकल्प है और एक ऐसा विकल्प है कि जिसे हर किसी को निश्चित रूप से अपने वित्तीय जोखिम की योजना का हिस्सा बनाना चाहिए।